

प्रेस नोट दिनांक 24-07-2021

मा0 मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम कल दिनांक 25-07-2021 को सकुशल समपन्न कराने हेतु आज दिनांक 24-07-2021 को लोहिया कला भवन में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा ड्यूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

ब्रीफिंग की शुरुआत डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा किया गया जिसमें महोदय द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम ड्यूटी में लगे अधिकारी/ कर्मचारीगण को उनके ड्यूटी प्वाइन्ट्स से अवगत कराकर उनके दायित्वों को बताया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पत्रकार बन्धुओं के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था डी0आई0ओ0एस0 ऑफिस के पास की गयी हैं। महोदय द्वारा ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़, प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के व्यक्तिगत सम्पर्क सूत्र व सी0यू0जी0 से अवगत कराया गया और किसी भी प्रकार की समस्या /जानकारी हेतु सीधे उक्त अधिकारीगण से संवाद करने हेतु कहा गया। श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा इस ड्यूटी के लिए आवश्यक तथ्यों से अवगत कराकर ड्यूटी हेतु प्रोत्साहित किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक 03, पुलिस उपाधीक्षक 10, निरीक्षक 21, उप-निरीक्षक 125, मुख्य आरक्षी 215, आरक्षी 348, महिला आरक्षी 35 व पी0ए0सी0 सुरक्षार्थ लगाये गये हैं।

सराहनीय कार्य दिनांक 24.07.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-24-07-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 554 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 203 वाहनों का चालान कर ₹ 2,09,200/- शमन शुल्क वसूल किया गया व प्रभारी यातायात श्री अमरेश यादव व यातायात कर्मचारियों द्वारा वाहनों पर लगी काली फिल्म,हूटर,प्रेसर हार्ड सायरन से संबंधित कार्रवाई की गयी।